

### August 13, 2022

The Secretary,
BSE Limited
Corporate Services Department,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001

Scrip Code: 532529

Asst. Vice President,
National Stock Exchange of India
Listing Department,
"Exchange Plaza", Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai-400051

Scrip Symbol: NDTV

Sub: <u>Submission of Newspaper Publication regarding 34<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company to be held on September 20, 2022 through Video Conferencing / Other Audio Visual Means</u>

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper publication published on the subject matter on August 13, 2022 in the following newspapers:

- Financial Express;
- Jansatta.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours sincerely,

For New Delhi Television Limited



Parinita Bhutani Duggal (Company Secretary & Compliance Officer)

Encl.: as above

# **FINANCIAL EXPRESS**

## **ABANS**° **ABANS ENTERPRISES LIMITED**

CIN: L74120MH1985PLC035243 Regd. Office: 36/37/38A, 3rd Floor, 227, Nariman Bhavan, Backbay Reclamation, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Tel No.: 022 - 6835 4100, Fax: 022 - 6179 0010 | Email: compliance@abansenterprises.com | Website: www.abansenterprises.com

## EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

253		Quarter ended	Year ended	Quarter ended
Sr. No.	Particulars	30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)
1. 2.	Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period	49,897.68	2,89,631.26	35,499.10
3.	(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax	696.61	3,004.67	170.86
4.	(after Exceptional and /or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax	696.61	3,004.67	170.86
5.	(after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss	927.05	2,901.21	215.52
200	for the period after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	1,274.74	3,166.32	318.81
6. 7.	Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited	1,394.98	1,394.98	1,394.98
8.	Balance Sheet of previous year) Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)		19,052.07	-
	(for continuing and discontinued operations) - 1. Basic ;	6.65	20.80	1.54
	2. Diluted:	6.65	20.80	1.54

a) The above results for the quarter ended June 30, 2022 have been reviewed by the Audit Committee Meeting held on August 11, 2022 and approved by the Board of Directors in their meeting held on August 11, 2022. b) Additional information on standalone financial results is as follows: (Rs. in Lacs)

Sr		Quarter ended 30.06.2022	Year ended 31.03.2022	Quarter ende 30.06.2021
Sr. No.	Particulars	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)
1.	Revenue from Operations	286.27	6,034.55	425.88
2.	Profit before Tax	(58.40)	129.13	(23.89)
3.	Profit after Tax	6.95	97.48	500000000000000000000000000000000000000
4.	Total Comprehensive Income for the period	6.95	99.70	(22.74)

under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the guarter ended financial results are available on the stock exchanges website i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and MSEI Limited (www.msei.in) and on Company's website (www.abansenterprises.com). For Abans Enterprises Limited

Place: Mumbai Date: August 11, 2022

Abhishek Bansal (Chairman and Managing Director)

(Rs. in Lakhs)

## TRANS INDIA HOUSE IMPEX LIMITED

(formerly known as IO System Limited)

Regd. Off.: Office No. 1109, Corporate Park Tower, A/1, Plot No. 7A/1, Sector-12, Noida, Gautam Buddha Nagar, UP-201301 IN Corp. Off.: B-1101, Titanium Square, B/H. Sarveshwar Tower, OPP. B.M.W. Show Room, Thaltej Ahmedabad-380054 GJ IN **Email:** io.exports.ltd@gmail.com; **Tel.:** 0120-4366443; **CIN:** L74110UP1987PLC008764

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

**FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022** 

Sr. No.	PARTICULARS	3 Months ended on 30/06/2022	Preceding 3 Months ended on 31/03/2022	Corresponding 3 Months ended 30/06/2021	Year ended 31/03/2022
	u.	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
	RTI				
1	Income from Operations				
	a) Revenue from Operations	111.68	-	_	-
	b) Other Income	_	0.00	0.00	0.01
	Total Income from Operations	111.68	0.00	0.00	0.01
2	Expenses				
	a) Cost of materials consumed	474.47	-	-	_
	b) Purchase of stock in trade	171.17	_	-	_
	c) Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade	(67.20)	_	_	_
	d) Employees benefit expense	16.14	8.78	7.62	35.23
	e) Finance costs	0.00	9.72	8.30	37.69
	f) Depreciation and amortisation expense	_	0.03	0.03	0.11
1	g) Other expenses	25.99	2.53	1.48	10.30
1 1	Total expenses	146.11	21.06	17.43	83.34
3	Profit(+)/Loss(-) before exceptional items & taxes (1-2)	(34.43)	(21.06)	(17.43)	(83.33)
4	Exceptional Items	i -	_	-	_
5	Profit(+)/Loss(-) before tax (3-4)	(34.43)	(21.06)	(17.43)	(83.33)
6	Tax Expense	_	- 1	- 1	-
7	Profit after tax (5-6)	(34.43)	(21.06)	(17.43)	(83.33)
8	Other Comprehensive Income	-	-	-	_
9	Total Comprehensive Income (7+8)	(34.43)	(21.06)	(17.43)	(83.33)
10	Paid up Equity Share Capital	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00
	(Face Value per share Rs. 10/-)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	
11	Reserve Excluding Revaluation Reserves	- 1		-	(2,125.34)
12	Earning Per Share (EPS) Basic & diluted EPS (not annualised) (In Rs.) Basic & diluted EPS after Extraordinary Items (not annualised) (In Rs.)	(0.20) (0.20)	(0.12) (0.12)	(0.10) (0.10)	(0.49) (0.49)

NOTES: The above results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 12.08.2022

The company operates only in one segment i.e. Office Automation Equipment. As such reporting is done on a single Deferred tax asset has not been accounted for in the books of accounts, due to uncertainty of future taxable profit.

No complaint was received from the investor during this period and there were no complaints pending at the beginning and at the end of this period.

Previous year figures have been regrouped and/or reclassified wherever necessary. For TRANS INDIA HOUSE IMPEX LIMITED

Dated: 12.08.2022

Place: NOIDA

(MAYANK JOLLY) (IRFAN QURESHI) Director Director

DIN: 09494589

REGD OFFICE:B-17, IIND FLOOR, 22 GODAM INDUSTRIAL AREA, JAIPUR-302006, INDIA

Tel No: 0141-2214074, 4025431 Web Site: www.highstreetfilatex.in | E-mail: highstreet.filatex@gmail.com

CIN: L18101RJ1994PLC008386 PUBLIC NOTICE OF 28TH ANNUAL GENERAL MEETING OF

## HIGH STREET FILATEX LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM") AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting ("AGM") of High Street Filatex Limited will be held on Friday, September 23, 2022 at 02:00 P.M. through video conferencing ("VC") or other audio visual means ("OAVM") in accordance with the Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with Circular No. 14/ 2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/ 2020 dated April 13, 2020, Circular no. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular no. 19/2021 dated December 08, 2021, Circular no 21/2021 dated December 14, 2021 and Circular no. 02/2022 dated May 05, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Circular No SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular no SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and Circular no SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 (collectively referred to as "SEBI Circulars") issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI')without the physical presence of the members at acommon venue.

In terms of the MCA Circularsand SEBI Circulars, Company will send the Annual report and AGM notice in electronic form only to the members who have registered their e-mail ids with the Company/Depository Participant(s)/RTA. The requirement of sending physical copies of the Notice convening 28th AGM and Annual report to the members has been dispensed withvide MCA Circulars and SEBI Circulars mentioned above.

Members can join and participate in the 28th AGM of the Company through VC/OAVM facility only and they shall be counted for the purpose of the reckoning the quorum as per the Section 103 of the Companies Act, 2013. The instruction for joining the 28th AGM and manner of participation in the remote e-voting/ e-voting during the 28th AGM will be provided in the Notice of 28th AGM. The notice of the AGM and Annual Report will be available on the website of the Company i.e. www.highstreetfilatex.in and website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com. The notice of the AGM will also be available on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL")i.e. www.evotingindia.com. Manner of registering/updating email address:

 Members holding the shares in Demat/electronic form and have not registered their email address with Depository Participants (DP)/Company are requested tocontact their respective DP wherein their demat accounts are maintained.

email id i.e. beetalrta@gmail.com and get the same registered.

Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding the shares on cut-off date i.e. Friday, September 16, 2022, may obtain Notice of

Members holding the shares in physical mode are required to contact RTA of the Company on their

AGM along with the Annual report for the financial year 2021-22 and login details for joining the AGM through VC/OAVM facility including e-voting details (user ID and password) by sending the request to helpdesk.evoting@cdslindia.com or Mr.Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL, ) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or may contact on Phone: 18002005533. Members may also write to Company Secretary at the Company email address highstreet.filatex@gmail.com. By the order of the Board

For High Street Filatex Limited

Vibhor Kumawat

Company Secretary and Compliance officer

Place : Kochi

Date: 12-08-2022

COMFORT INTECH LIMITED CIN:L74110DD1994PLC001678

Registered Office: 106. Avkar Algani Nagar, Kalaria, Daman, DD 396210: Corporate Office.: A-301, Hetal Arch, S.V. Road, Malad (West), Mumbai 400064;

Phone No.: 022-6894-8500/08/09. Fax: 022-2889-2527: Email: info@comfortintech.com: Website: www.comfortintech.com EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022

		Standalone			Consolidated				
SI. Io.	Particulars	Quarter Ended 30.06.2022 Unaudited	Quarter Ended 31.03.2022 Audited	Corresponding Quarter Ended 30.06.2021 Unaudited	Year Ended 31.03.2022 Audited	Quarter Ended 30.06.2022 Unaudited	Quarter Ended 31.03.2022 Audited	Corresponding Quarter Ended 30.06.2021 Unaudited	Year Ended 31.03.2022 Audited
1	Total Income	4434.40	2472.04	2189.14	13251.65	4434.40	2472.04	2189.14	13251.65
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	134.92	194.33	217.13	651.74	134.92	194.33	217.13	651.74
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, (after Exceptional items)	134.92	194.33	217.13	651.74	134.92	194.33	217.13	651.74
4	Net Profit / (Loss) for the period (after tax and after Exceptional items)	96.45	139.31	160.24	480.00	96.45	139.31	160.24	480.00
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(6.92)	(182.46)	182.29	276,32	(57.63)	(341.35)	548.30	578.04
6	Equity Share Capital (Face Value Rs.10/- Each)	3199.38	3199.38	3199.38	3199.38	3199.38	3199.38	3199.38	3199.38
7	Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	0	0	0	7444.27	0	0	0	8322.83
8	Earnings per Share (Basic and diluted) before and after extraordinary items	0.30*	0.44*	0.50*	1:50	0.15"	(0.06)*	1.63*	2.43

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the stock exchange website at www.bseindia.com and also on the Company's website at www.comfortintech.com.

Comfort Intech Limited ANKUR AGRAWAL DIRECTOR DIN: 06408167 Date: August 12, 2022

Corporate Office at Plot No.98, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurgaon-122015. (Harvana) and Branch Office at:- Plot No. 30/30E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom, Moti Nagar, New Delhi.. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002(hereinafter "Act"). Whereas the Auhorized Officer ("AO") of IIFL-HFL had taken the possession of the following property/ies pursuant to the notice issued U/S 13(2) of the Act in the following loan accounts/prospect nos, with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS & AS IS WHAT IS BASIS" for realization of IIFL-HFL's dues. The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website: www.bankeauctions.com.

Borrower(s) / Co-Borrower(s) / Guarantor(s)	Date and Amount	Description of the Immovable property/ Secured Asset	Date of Physical Possession	Price	Date of Inspection of property
1.Mr.Bhim Sen 2.Mrs.Durga	24-Sep-2021 Rs.16,08,454/-	All that part and parcel of the property bearing Prop No. B-		Rs.16,11,400/- (Rupees Sixteen Lakh	09-Sept-2022 1100 hrs -1400 hrs
Devi 3. Navya Garments 4. Mrs.Rajni	(Rupees Sixteen Lakh Eight Thousand Four Hunred Fifty Four Only)		As On Date 08 - Aug - 2022 Rs.15,13,875/- (Rupees Fifteen	Eleven Thousand Four Hundred Only)  Earnest Money Deposit (EMD)Rs.1,61,140/-	till 5 pm.
(Prospect No 930002 & 933336)	Rs.25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only)	No. 6, Nehru Vihar, Illaqa- Shahdara, Pincode: 110094, Delhi, India	I nollegna Liant I	(Rupees One Lakh Sixty One Thousand One Hundred Forty Only)	Date/ Time of E-Auction 14-Sept-2022 1100 hrs-1300 hrs

I. For participating in e-auction, Intending bidders required to register their details with the Service Provider https://www.bankeauctions.com well in advance and has to create the login account, login ID and password. Intending bidders have to submit / send their "Tender FORM" along with the payment details towards EMD, copy of the KYC and PAN card at the above mentioned Branch Office.

2. The bidders shall improve their offer in multiple of amount mentioned under the column "Bid Increase Amount". In case bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes.

and the balance 75% of the bid amount within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. All deposit and paymen shall be in the prescribed mode of payment

I. The purchaser has to bear the cess, applicable stamp duty, fees, and any other statutory dues or other dues like municipal tax, electricity charges, land and all other incidental costs, charges including all taxes and rates outgoings relating to the property.

Kochi, Kerala - 682025 CIN: U65923KL2011PLC027672

Unaudited Financial Statement for the Quarter ended 30th June 2022 (Standalone)

[Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (LODR) Regulations, 2015] Rs. in lakhs

SI.No	Particulars	Current Quarter ended 30-06-2022	Previous year ended 31-03-2022
1	Total Income from Operations	844.01	2984.99
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	39.95	369.87
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	39.95	369.87
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	30.29	287.44
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	30.29	287.33
6	Paid up Equity Share Capital	2886.65	2886.65
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserve)	549.25	518.96
8	Net worth	3435.90	3405.61
9	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt		- 1
10	Outstanding Redeemable Preference Shares *	-	-
11	Debt Equity Ratio *	5.17	4.83
12	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted:	0.09 0.09	1.18 1.18
13	Capital Redemption Reserve *	-	
14	Debenture Redemption Reserve *	_	<u>-</u> [
15	Debt Service Coverage Ratio *	NA	NA
16	Interest Service Coverage Ratio *	NA	NA

(a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Bombay Stock Exchange (BSE) under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the websites of the Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and the Company (www.hedgefinance.com)

(b) For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) (specify names of Stock Exchanges) and can be accessed on the URL (specify URL).

accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.

(d) Exceptional and / or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

(e) \* - The pertinent items need to be disclosed if the said disclosure is required as per Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing) and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Alex Kalluvila Babu Managing Director

INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

CIN- L74899DL1993PLC053034
Regd. Office: STATESMAN HOUSE, 148, BARAKHAMBA ROAD, NEW DELHI -110001 Tel No-011-42284301 E-Mail: info.isl1993@gmail.com, Website: www.internationalsecuritiesltd.com Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter ended as on June 30, 2022

		Separation (	Citoria		Less Clinden
	PARTICULARS	30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)	30.06.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)
1	Total income from operations (net)	90.15	133.54	-35.88	29.90
2	Net Profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	75.40	100.41	-63.30	-57.58
3	Net Profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	75.49	100.41	-63.30	-57.58
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	75.49	101.67	-63.30	-56.32
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	75.49	101.67	-63.30	-56.32
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	300.00	300.00	300.00	300.00
7	Reserve (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balnace Sheet of Previous Year	387.02	311.53	304.55	311.53
8	Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each) (Not Annualised) Basic : Diluted :	2.51 2.51	3.39	-2.11 -2.11	-1.87 -1.87

filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone Quarterly financial results are available on Company's Websites www.internationalsecuritiesltd.com and on the website of the Metropolitan Stock Exchange of India Limited i.e. www.msei.in. b) The above results have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board

of Directors at their meeting held on August 12, 2022 and had undergone a 'Limited Review' by the Statutory Auditor of the Company. The standalone financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment rules thereafter. On behalf of the Board of Directors Rajeev Kumar Gupta Place: New Delhi

Date: August 12, 2022

(Rs. in lakh, except EPS)

Whole Time Director

CIN: L15142PB1981PLC004736 Registered Office: Momnabad Road, Village Akbarpura (Ahmedgarh) District Sangrur, Punjab -148021. Phone Number: 0161-5059126. Email: rajiv\_ritesh2007@rediffmail.com Website: https://www.riteshinternationalltd.com/Email : cs\_riteshinternational@yahoo.com

Extracts of Standalone Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2022 **Particulars** months ended i ended the previous year Figures 30.06.2021 30.06.2022 31.03.2022 Quarterly 5004.03 14052.35 Total Income from operations 2231.87 230.34 472.68 35.38 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax. Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after 228.23 453.69 35.38 Exceptional and/or Extraordinary items#) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after 170.23 356.69 29.88 Exceptional and/or Extraordinary items)

Total Comprehensive Income for the period 170.23 356.69 29.88 Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) & Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital 855.28 855.28 855.28 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in Audited Balance Sheet of the previous year) 844.18 844.18 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Note: a) The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under

Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Regulations). Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the websites of the BSE (www.bseindia.com) and on the company's website ww.riteshinternationalitd.com). b) The above Financial Results have been reviewed by Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 12th August, 2022 . C) The above mentioned values are in Lakhs (Except for Earning per Share which is in Rupses) d). There is only one Segment, namely, Non edible Oils, which is the primary reportable segment

By the order of Board of Directors For Ritesh International Limited

DIN: 07477956 (Wholetime Director)

Place: Ahmedgarh Date: 12.08.2022

Sr. Folio No.

Reliance

Regd.office: 3rd Floor, Maker Chambers IV, 222, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Phone: 022-3555 5000. Email: investor:relations@ril.com CIN: L17110MH1973PLC019786

NOTICE

NOTICE is hereby given that the following certificate(s) issued by the Company are stated to have been lost or misplaced and Registered Holders thereof have applied for the issue

Name / Joint Names Shares Certificate Nos. Distinctive Nos.

From - To

onal so in the processing the payment		140				From - 10	From - 10
<ol> <li>The purchaser has to bear the cess, applicable stamp duty, fees, and charges, land and all other incidental costs, charges including all taxes.</li> <li>Bidders are advised to go through the website https://bankeauctions</li> </ol>		1	1589741	Gerald Joseph Lobo Martha Lobo Martha Lobo	26 15	4952735-736 6345680-680 10345945-945	81753757-782 134380778-792 185422205-254
detailed terms and conditions of auction sale & auction application form be	efore submitting their Bids for taking part in the e-auction sale proceedings.			This that 2000	12	12865952-952	258661713-724 391302015-069
	rospective bidders may contact the service provider E mail ID:- 1124/25/26.and any property related query Mr. Jitendra Gupta @				167	51647156-159 58269004-004	1186036035-201 1616828211-300
9372258003, Email:-jitendra.gupta1@iifl.com,		ш			415	62391195-195	2200335290-704
	old articles, which were lying in the secured asset at the time of taking	2	3637646	Hira Lal	5	635523-523	17333603-607
physical possession within 7 days, otherwise IIFL-HFL shall not be res		ш		Jagdish Narain Suri	H	1027913-913	25488695-705
8. Further the notice is hereby given to the Borrower/s, that in case they fail to		ш			14	2196266-266	43387449-462
9. In case of default in payment at any stage by the successful bidder		ш			5	3137252-252	49749198-202
cancelled and the amount already paid will be forfeited (including EMI	and the property will be again put to sale.	ш			26	5046590-591	83169007-032
10. AO reserves the rights to postpone/cancel or vary the terms and condi		ш			10	6413851-852 10083821-821	135535340-366 181826120-137
any dispute in tender/Auction, the decision of AO of IIFL-HFL will be fi	nal.	ш			22	12944488-488	259839125-146
STATUTARY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER	RULE 8 (6) OF THE SARFAESI ACT, 2002	ш			6	14158942-943	331261884-889
The Borrower are hereby notified to pay the sum as mentioned above alc				CONTRACTOR OF THE STATE OF THE	134	53927781-784	1266380568-701
Tender/Auction, failing which the property will be auctioned/sold and balar	nce dues if any will be recovered with interest and cost	3	110191319	Pankaj Rastogi	63	58009244-244	1609006281-343
	·			1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	63	62267930-930	2190038192-254
Place:-Delhi , Date: 13-Aug-2022	Sd/- Authorised Officer, IIFL Home Finance Limited		SALANO SLIVA	100000000000000000000000000000000000000	126	66474673-673	6859176590-715
		4	110191335	Rajni Rastogi	63	58009246-246	1609006407-469
				The state of the s	63	62267931-931	2190038255-317
			20242774	Decide Legislation &	126	66474674-674	6859176716-841
Hadaa Ein	anco I td	5	29342//6	Ravichandran A	318	66842308-308	6891276204-521

The Public is hereby warned against purchasing or dealing with these securities any way. Any person(s) who has I have any claim in regard of the securities, should lodge such claim with the Company's Registrar and Transfer Agents viz. "KFin Technologies Limited", Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, within Seven (7) days from the date of publication of this notice, failing which, the Company will proceed to issue letter(s) of confirmation in lieu of duplicate certificate(s) in respect of the aforesaid securities.

> for Reliance Industries Limited Savithri Parekh

Date : August 12, 2022

Place: Mumbai

Company Secretary and Compliance Officer www.ril.com

CIN: L92111DL1988PLC033099 Regd. Off.: B 50-A, 2nd Floor, Archana Complex,

NEW DELHI TELEVISION LIMITED

Greater Kailash - I, New Delhi-110048 & Phone: (91-11) 4157 7777, 2644 6666 | T Fax: 49862990 E-mail: secretarial@ndtv.com | ⊕ Website: www.ndtv.com INFORMATION REGARDING 34THANNUAL GENERAL MEETING

he 34th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of New Delhi Television

Limited ('the Company') will be held through Video Conference ('VC') / Other Audio- Visual Means ('OAVM') on Tuesday, September 20, 2022 at 3.00 P.M. (IST), in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with all applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM.

The Notice of the 34th AGM and the Annual Report for the financial year ended March 31, 2022 of the Company will be sent through electronic mode by August 27, 2022 to those Members, whose e-mail address are registered with the Company/ RTA/Depository Participant(s). The Notice of AGM and the aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.ndtv.com and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and also on the website of the National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com. Manner of registering / updating e-mail address: (a) Member holding shares in physical mode and who have not registered ,

updated their e-mail address with the Company, are requested to register, update their e-mail address at the earliest by submitting Form ISR-1 (available on the Company website at https://www.ndtv.com/convergence/ndtv/ corporatepage/images/FormISR-1.pdf) duly filled and signed along with requisite supporting documents to the Company at secretarial@ndtv.com or to the RTA at KFinTech at Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032. Member holding shares in dematerialised mode, who have not registered/

update their e-mail address with the Depository Participant(s), are requested to register/update the same with the Depository Participant(s) where they maintained their demat accounts.

Manner of casting vote(s) through e-voting: Members can cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM.

emote e-voting or e-voting at the AGM.

through electronic voting system ("e-voting"). The manner of voting including voting remotely ("remote e-voting") or by e-voting at the time of AGM by Members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for Members who have not registered their e-mail address has been provided in the Notice of AGM. Members attending the AGM who have not casted their vote (s) by remote e-voting will be able to vote electronically at the time of AGM.

The information about login credentials to be used and the steps to be followed for

attending the AGM are explained in the Notice of AGM. Members are requested to carefully read the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through

> For New Delhi Television Limited Parinita Bhutani Duggal

Date: August 12, 2022

M. No.: ACS-55710

For and on behalf of the Board of Directors of Place: Mumbai

Public Notice For E-Auction For Sale Of Immovable Properties

Sale of Immovable property mortgaged to IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL-HFL)

/ Guarantor(s)	Date and Amount	Secured Asset	Possession	Price	or property	
1.Mr.Bhim Sen 2.Mrs.Durga Devi 3. Navya Garments 4. Mrs.Rajni (Prospect No 930002 & 933336)	Rs.16,08,454/- (Rupees Sixteen Lakh Eight Thousand Four Hunred Fifty Four Only)  Bid Increase Amount Rs.25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only)	yards, Khasra No. 333, Situated At Village- Mustafabad, Abadi Of Gali No. 6, Nehru Vihar, Illaqa- Shahdara, Pincode: 110094, Delhi, India	Total Outstanding As On Date 08 - Aug - 2022 Rs.15,13,875/- (Rupees Fifteen Lakh Thirteen Thousand Eight Hundred Seventy Five Only)	Hundred Only)  Earnest Money Deposit (EMD)Rs.1,61,140/- (Rupees One Lakh Sixty One Thousand One Hundred Forty Only)	Date/ Time of E-Auction 14-Sept-2022 1100 hrs-1300 hrs	The state of the s
Mode of Payme	ent:- All payment shall b	e made by demand draft in fa	vour of "IIFL Home	Finance Limited" payable a	at Gurugram or through	ă.

RTGS/NEFT The accounts details are as follows: a) Name of the account:- IIFL Home Finance Ltd., b) Name of the Bank:- Standard Charted Bank Ltd., c) Account No:-53105066294, d) IFSC Code:-SCBL0036025 or through Payment Link: https://guickpay.iiflfinance.com

**TERMS AND CONDITIONS:-**

3. The successful bidder should deposit 25% of the bid amount (after adjusting EMD) within 24 hours of the acceptance of bid price by the AC

# **Hedge Finance Ltd.**

Reg. Off.: Hedge House Mamangalam Palarivattom P.O,

(c) The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in

For and on behalf of the Board of Directors of **Hedge Finance Ltd** 

> Place: New Delhi (DIN 01254207)

New Delhi

Company Secretary & Compliance Officer

financialexp.epag

Date: August 12, 2022

Place: Jaipur

बा.पो. केपिटल लिमिटेड

CIN: L74899HR1994PLC072042 पंजी. कार्या: प्लॉट नं. 138. रोज का मेयो इंडस्टियल एरिया, सोहना (जिला मेवात) हरियाणा-122103 फोनः 0124-2362471, वेबसाईटः www.bpcapital.in, ईमेलः bpcapitallimited@gmail.com

30 जुन, 2022 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का सार

क्रम	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त
सं.		30.6.2022 ( अनंकेक्षित )	30.6.2021 ( अनंकेक्षित )	31.3.20 ( अंकेक्षि
1.	परिचालनों से कुल आय	0	0	
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(3.51)	(3.54)	(20.5
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों के बाद)	(3.51)	(3.54)	(20.8
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	(3.51)	(3.54)	(20.
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	(3.51)	(3.54)	(20.
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	601.18	301.18	60
7.	आरक्षित (मूर्व वर्ष के तुलन-पत्र में दर्शाये गये पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)	-	-	
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिये) मूलः	(0.06)	(0.12)	(0.
	तरलः	(0.06)	(0.12)	(0.

में दाखिल की गई 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। उक्त वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप बीएसई की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट www.bpcapital.in पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर से बी.पी. कैपिटल लिमिटेड

आदित्य अगरवाल स्थानः हरियाणा प्रबंध निदेशक तिथि: 12.8.2022 DIN: 08982957

लीडिंग लीजिंग फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कंपनी लिमिटेड सीआईएन : L65910DL1983PLC016712 पंजी. कार्या.: 611, छठवां तल, प्रगति टॉवर 26, राजेन्द्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के सम्मुख, नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली-110008 ई—मेलः leadingleashing@gmail.com, वेबसाइटः www.llflltd.com

दूरभाष सं.: 011-65632288

30 जुन 2022 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

			भाग ।
विवरण (निम्नवर्णित टिप्पणियां का संदर्भ ग्रहण करें)	समाप्त तिमाही (30.06.2022) (अलेखापरीक्षित)	समाप्त पूर्ववर्ती वर्ष (31.03.2022) (लेखापरीक्षित)	(लाख) पूर्ववर्ती वर्ष में समाप्त तद्नुरूपी 3 माह (30.06.2021) (अलेखापरीक्षित)
प्रचालनों से कुल आय	8456	143.29	132.58
अविध हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व*)	64.77	75.75	13.09
कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाम/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरान्त*)	64.77	75.75	13.09
कर उपरान्त अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	47.93	56.81	9.59
अविध हेतु कुल व्यापक आय [अविध हेतु लाभ/(हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट]	47.93	56.81	9.59

0.18 2. तनुकृत 0.18 . उपरोक्त विवरण, सेबी (सूचीकरण दायित्व तथा अन्य प्रकटीकरण आवष्यकताएं) विनियमावली २०१५ के विनियम ३३ के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइलबद्ध तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज(जों) तथा सूचीबद्ध निकाय की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र में निदर्शितानुसार

दिनांक: 12.08.2022

(परिचालनरत् एवं अपरिचालित परिचालनों के लिए)

लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों के कारण निवल लाभ / हानि, कुल व्यापक आय अथवा किसी अन्य सुसंगत वित्तीय मद प पडनेवाला प्रभाव के पाद-टिप्पणी के माध्यम से प्रकट किया जाएगा। लाभ एवं हानि के विवरण में आपवादिक तथा / अथवा असाधारण मदों का समायोजन, आईएनडी–एएस नियमावली / एएर नियमावली, जो भी लागू है, के अनुसार किया गया है। कृते लीडिंग लीजिंग फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कंपनी लिमिटेड

> नामः अमी जिनेन शाह पद्नामः पूर्णकालिक निदेशक डीआईएनः 06792048

# फंडरल बंक

आपका सम्पूर्ण बैंकिंग भागीदार

एलसीआरडी डिविजन/नई दिल्ली, यु.जी.एफ.. फेडरल टॉवर्स, 2/2 वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 फोन नं. 011-40733980, 40733978 ई-मेलः ndllcrd@federalbank.co.in CIN: L65191KL1931PLC000368 वेबसाईट: www.federalbank.co.in सरफेंसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) (यहां के बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के साथ

पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत सूचना श्री गुड़ु शर्मा पुत्र श्री जंगजीत शर्मा, निवासी : सी–50, ट्रक पार्किंग, पुलिस स्टेशन के पास, तिमारपुर, दिल्ली-110054

सामने, गाजियाबाद, यूपी –201102। आप प्रमुख उधारकर्ता ने बैंक के पक्ष में आवश्यक सुरक्षा समझौते / ऋण दस्तावेज निष्पादित करने के बाद नई दिल्ली / वेस्टएंड कॉलोनी के माध्यम से 13.02.2020 को रु.

इसके अलावाः एच.नंबर 286 डी ब्लॉक, राधे कृष्ण मंदिर के पास, रविवार बाजार, लोनी, भैता गांव के

8,00,000/ – (केवल आठ लाख रु.) का कार ऋण का लाभ उठाया है। बिंक से प्राप्त उपरोक्त ऋण सुविधाओं की सुरक्षा के लिए, आपने निम्नलिखित वाहनों के सम्बन्ध में दुष्टिबंधक के माध्यम से बैंक के पक्ष में सुरक्षा हित बनाया है।

काल्पनिक चल सम्पत्तियों का विवरण ब्रांड नई हंडई क्रेता 1-4 CRDIE + कार पंजीकरण संख्या DL8CAZ8106, चेसिस संख्या–MALC181RLLM663741, इंजन संख्या D4FCLM961610, पंजीकरण प्राधिकरण वज़ीरपुर में 16.03.2020 को पंजीकृत।

पूर्वोक्त बंधक / गिरवी रखी गई संपत्ति को इसके बाद प्रतिभृति संपत्ति के रूप में संदर्भित किया गया है। अधोहस्ताक्षरी फेडरल बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते आपको सूचित करते हैं कि एनडीएल / बैंक की वेस्टएंड शाखा के साथ आपके ऋण खाते 11947400001839 के तहत 22. 07.2022 की स्थिति के अनुसार रू 6,89,901 / – (छह लाख नवासी हजार नौ सौ एक रुपये मात्र) की राशि आपसे संयुक्त रूप से और अलग–अलग बकाया है। भुगतान में चूक को देखते हुए, आपके ऋण खाते/ खातों को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 22.06.2022 को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एतद्वारा आपको कार ऋण खाता 11947400001839 के तहत 14.07.2022 से दंडात्मक ब्याज / 2% प्रति वर्ष एवं मासिक अंतराल के साथ 9% प्रति वर्ष की दर से अन्य ब्याज के साथ उक्त राशि का भूगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा जाता है। जिसमें विफल होने पर, बैंक अधिनियम की धारा 13 के तहत आपके और ऊपर उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियों को उनका कब्जा लेने, पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री, या अधिग्रहण के माध्यम से उन्हें स्थानांतरित करने के अधिकार सहित आपको बिना किसी नोटिस के बकाया राशि की वसूली के लिए सुरक्षित परिसंपत्तियों का प्रबंधन सहित अपने सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा। यह सूचित किया जाता है कि, आप बैंक की लिखित सहमति के बिना उपरोक्त उल्लिखित किसी भी सुरक्षित संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा किसी भी तरह से स्थानांतरित नहीं करेंगे। अपनी देयता का निर्वहन करने में आपकी विफलता की स्थिति में और बैंक ऊपर बताए गए अनुसार उपचारात्मक कार्रवाई शुरू करता है, आप उस संबंध में किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के लिए बैंक को भगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि बकाया राशि प्रतिभति परिसंपत्तियों की बिक्री से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, तो बैंक बिना किसी सूचना के शेष राशि की वसली के लिए व्यक्तिगत रूप से आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। प्रतिभति परिसंपत्तियों (प्रतिभूति संपत्तियों) को भूनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। यह नोटिस बैंक के बकाया की वसूली के लिए उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किया जाता है। यह नोटिस 22 जुलाई 2022 के दिन जारी किया गया था और इसे आप पर तामील किया गया था. लेकिन ऐसा लगता है कि आपको प्राप्त नहीं हुआ है. जिसके लिए सरफेसी अधिनियम के अनुसार इस प्रकाशन की आवश्यकता है।

कृते फेडरल बैंक लिमिटेड, उप उपाध्यक्ष आज दिनांक 12 अगस्त 2022 (सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

### फार्म संख्या आईएनसी-25ए सार्वजनिक कम्पनी का निजी कम्पनी में रूपांतरण के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराने कि लिए

क्षेत्रीय निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी, क्षेत्र के समक्ष कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 14 कम्पनीज अधिनियम, 2013 एवं कम्पनीज (निगमन नियमन, 2014 के नियम 41 के मामले में

मैसर्स श्री बालाजी होल्डिफन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 268, दीपाली इनक्लेव, पीतमपुरा, नार्थ वैस्ट दिल्ली -110034, के मामले में, आवेदक

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 14 साथ में पिटत उपरोक्त नियमों के अंतर्गत आम जनता को एतदद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी की 10.08.2022 को सम्पन्न असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के सम्बन्ध में कम्पनी के निजी कम्पनी में परिवर्ततन के लिए केन्दीय सरकार को एक आवेदन करने की इच्छक है ताकि कम्पनी को इस तरह के रूपांतरण के लिए प्रभावी बनाया जा सके।

जिस किसी भी व्यक्ति को कम्पनी के प्रस्तावित बदलाव/स्थिति से हित प्रभावित होता हो तो वह अपने विरोध एवं हित के स्वभाव एवं अभिरूचि को बताते हुए शपथ पत्र द्वारा समर्थित विरोध के आधारों से सम्बन्धित को पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सूचना प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेजे. साथ में उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कम्पनी के निम्न वर्णित पंजीकृत कार्यालय पर भी भेजे। आवेदक की ओर से

> हस्ता०/ सुरेश सिंघल DIN: 00140540 268, दीपाली इनक्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली -110034

### आरसीसी सीमेन्टस लिमिटेड CIN:L26942DL1991PLC043776

तिथि: 13.08.2022

स्थानः दिल्ली

पंजी. कार्या. : 702, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्भा रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 फोनः 011-43571044, फैक्स : 011-43571047,

वेबसाईट : www.rcccements.com, ई-मेल : rcccementslimited@gmail.com 30 जन. 2022 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का सार

हम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.6.2022	समाप्त छमाही 30.6.2021	समाप्त तिम 31.3.202
		( अनंकेक्षित )	( अनंकेक्षित )	( अंकेक्षित
1	परिचालनों से कुल आय	1.18	0.12	3.52
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(2.86)	(2.88)	(12.82
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों के बाद)	(2.86)	(2.88)	(12.82
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	(2.86)	(2.88)	(12.82
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	(2.86)	(2.88)	(12.82
6	इक्विटी शेयर पूंजी	560.20	560.20	560.20
7	आरक्षित (पूर्व वर्ष के तुलन-पत्र में दर्शाये गये पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)		-	_
8	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के		(2.25)	(2.22
	लिये) मूलः तरलः	(0.05) (0.05)	(0.05) (0.05)	(0.23
	44.619	(0.05)	(0.05)	(0.23

सम्पूर्ण प्रारूप बीएसई की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट www.rcccements.com पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर से आरसीसी सीमेन्टस लिमिटेड थान: नर्ड दिर्ल्ल तिथि: 12.8.2022 DIN:03320351

### SOM DATT FINANCE CORPORATION LIMITED CIN: L65921DL1993PLC377542

Registered Office: 516, Suneja Tower-I, District Centre, Janakpuri, Delhi-110058 E-mail: compliancesdfl@gmail.com, Website: www.somdattfin.com STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIALS RESULTS FOR THE

		Qu	Year ended		
Sr No	Particulars	30-Jun-22	31-Mar-22	30-Jun-21	31-Mar-22
INO		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
	Revenue from operations i) Dividend income ii) Net gain on fair value changes	1.24 (378.17)	12.66 (70.83)	6.23 297.62	59.10 480.15
1	Total revenue from operations	(376.93)	(58.17)	303.85	539.25
П	Other income	0.05	0.01		0.01
III	Total income (I+II)	(376.88)	(58.16)	303.85	539.26
2010	Expenses i) Finance costs ii) Fees and commision expense iii) Employee benefits expense iv) Depreciation and amortization expense v) Other expenses	1.16 8.70 0.23 5.26	1.16 10.95 0.22 6.29	0.77 4.40 4.95 0.02 4.27	0.99 8.21 33.18 0.51 25.65
IV	Total expenses	15.35	18.62	14,41	68.54
> >! >!!	Profit before exceptional items and tax (III-IV) Exceptional items Profit before tax (V-VI) Tax expenses i) Current tax ii) Adjustment of tax relating to earlier years	(392.23)	(76.78) (76.78) (12.78) (2.38)	289.44 289.44 48.34	470.72 470.72 78.69 (2.21)
	iii) Deferred tax	(58.97)	7.57	0.87	10.21
VIII	Total tax expenses	(58.90)	(7.59)	49.21	86.69
IX	Profit for the period (VII-VIII)  Other comprehensive income i) Items that will not be reclassified to profit or loss in subsequent years: - Remeasurement of post employment benefit obligations ii) Income tax relating to items	(333.33)	(69.19) (0.05)	240.23	384.03
- 4	that will not be reclassified to		14/14/17		04040
х	profit or loss Total other comprehensive income	-	0.01 (0.04)		0.01 (0.04)
XI	Total comprehensive income	- 5	(0.04)		(0.04)
4.41	The same provided by the control of the same of the sa				

(3.33)ii) Diluted (3.33)See accompanying notes to financial results.

NOTES:

for the year (IX+X)

Basic / Diluted Earnings Per

Share (FV of INR 10/- each)

The above results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on August 12, 2022.

The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016.

(333.33)

(69.23)

(0.69)

(0.69)

240.23

2.40

2.40

383.99

3.84

3.84

. As per Indian Accounting Standards (IndAs) 108 "Operating Segment", the company's business falls within a single business segment.

Figures for the previous guarters / periods have been regrouped / reclassified. wherever necessary, to correspond with the current period's classifications / disclosures. For and on behalf of board of directors of Som Datt Finance Corporation Limited

Vijay Rathee Managing Director Place : Gurugram DIN No: 00042731 Date : August 12, 2022

Regd. Office: Unit Nos. 2050-2052, 2nd Floor, Plaza-II, Central Square, 20, Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Delhi - 110006 E-mail: investors@dcm.in Phone: 011-41539170 CIN: L74899DL1889PLC000004

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022. [In terms of regulation 47 (1) (b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015]

Sr. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		For the quarter ended			For the year ended	For the quarter ended			For the year ended
		June 30, 2022 Unaudited	March 31, 2022 Audited	June 30, 2021 Unaudited	March 31, 2022 Audited	June 30, 2022 Unaudited	March 31, 2022 Audited	June 30, 2021 Unaudited	March 31, 2022 Audited
1	Total income from operations		93	7	110	1,788	1,976	1,589	6,977
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax)	(340)	860	810	1,743	(15)	1,131	1,139	3,215
3	Net Profit/(Loss) for the period after tax	(340)	860	810	1,778	(72)	1,052	1,086	3,017
4	Total Comprehensive Income/(Expense) for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income/(Expense)]	(321)	888	826	1,854	(53)	1,087	1,102	3,101
5	Equity Share Capital	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868
6	Other equity	70		100	(526)	2		. 02	(674)
7	Earnings/ (loss) per equity share (EPS) of Rs. 10 each (not annualised) Basic EPS (₹) Diluted EPS (₹)	(1.82) (1.82)	4.60 4.60	4.34 4.34	9.52 9.52	(0.39) (0.39)	5.63 5.63	5.81 5.81	16.15 16.15

## Notes:

Place: Delhi

Date : August 12, 2022

- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meeting(s) held on August 2022. The Limited Review Report of the Statutory Auditors has been filed with the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.
- The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges (i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The details in prescribed format of the results are available on the website of Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Company's website www.dcm.in.

For and on behalf of the Board For DCM Limited Jitendra Tuli Managing Director DIN: 00272930

### INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

CIN- L74899DL1993PLC053034
Regd. Office: STATESMAN HOUSE, 148, BARAKHAMBA ROAD, NEW DELHI -110001 Tel No-011-42284301 E-Mail : info.isi1993@gmail.com, Website : www.internationalsecuritiesItd.com Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter ended as on June 30, 2022. (Rs. In Lakhs)

		Quarter	Year Ended			
PARTICULARS		30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)	30.06.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)	
1	Total income from operations (net)	90.15	133.54	-35.88	29.90	
2	Net Profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	75.40	100,41	-63.30	-57.58	
3	Net Profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	75.49	100,41	-63.30	-57.58	
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	75.49	101.67	-63,30	-56.32	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	75.49	101.67	-63.30	-56.32	
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	300.00	300.00	300.00	300.00	
7	Reserve (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balnace Sheet of Previous Year	387.02	311.53	304.55	311.53	
8	Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each) (Not Annualised)	10/5/37	35500	0.000100	70.707	
	Basic :	2.51	3.39	-2.11	-1.87	
10	Diluted :	2.51	3.39	-2.11	-1.87	

 The above is an extract of the detailed format of standalone results for Quarter ended on June 30, 2022 filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone Quarterly financial results are available on Company's Websites www.infernationalsecurities.ltd.com and on the website of the Metropolitan Stock Exchange of India Limited i.e. www.msei.in.

The above results have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at their meeting held on August 12, 2022 and had undergone a "Limited Review" by the Statutory Auditor of the Company. The standalone financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment rules thereafter On behalf of the Board of Directors

Rajeev Kumar Gupta Place : New Delhi Whole Time Director Date : August 12, 2022

## कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड

पंजी. कार्या.: 905, न्यू दिल्ली हाएस, 27, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001 CIN: L74110DL1980PLC010678 whe: 91-11-40045955

ई भेजः compliance@kotiaenterprises.com, वेवखाइटः www.kotiaenterprises.com 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम (क लाखाँ में)

		सम	समाप्त वर्ष			
那. 电.	विवरण	30 जून, 2022 अनंकेंसित	31 मार्च, 2022 अनंकेंद्रित	30 जून, 2021 वनकेशित	31 मार्च, 2022 अंकेबित	
1	प्रचालन सं कुल आय (शुद्ध)	14,77	128.09	40.88	435,87	
2	अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/व असाधारण नदों से पूर्व)	(12.10)	16,96	19.69	70,38	
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण मदों के बाद)	(12.10)	16.96	19.69	70.38	
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाम/ (डानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण मदों के बाद)	(9.05)	12.46	14.73	52.44	
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय अवधि के लिए लाग/(डानि) (कर) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल	(9.05)	12,46	14.73	52.44	
6	इक्विटी शेवर पूंजी	702.05	702.05	702.05	702.05	
7	पिछले वर्ष की अंकेशित बैलेंस शीट में दिखाए अनुसार रिजर्व (पुनर्मृत्यांकन रिजर्ल को छोडकर)	278.63	266,17	226.20	226.19	
8	प्रति शेयर आय (असाधारण गर्दो के बाद) (प्रत्येक रॅं 10 / - कें) बेसिक : ढायल्युटिवः	(0.13) (0.13)	0.18 0.18	0.21 0.21	0.75 0.75	

स्थानः नई दिल्ली

12 अगस्त, 2022 को आयोजित बैठक में 30 जन, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए उपरोक्त अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई है और फिर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

चपरोक्त परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक संशोधन नियम, 2016) द्वारा यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 के मान्यताप्राप्त एवं मापक सिद्धांतों और वर्तमान में लाग अन्य मान्यताप्राप्त लेखाकरण पद्धतियाँ एवं नीतियों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं। वर्तमान अवधि के वर्गीकरण की पृष्टि के लिए जहां कहीं आवश्यक हुआ, पिछली अवधि के

आंकडों को पूनः समृहित किया गया है। समाप्त तिमाही लिए वितीय परिणामों का सम्पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindis.com और www.msei.in) और कंपनी की वेक्साइट www.kotiaenterprises.com पर

कर्ते कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड

नीलम रानी विषि: 12 अगस्त, 2022 (कंपनी सविव एवं अनुपालन अधिकारी)







इंडिया बिल्डिंग, 70/80, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 001. फोनः 022 - 61870400/402, फैक्सः 022 - 22604475 ईमेलः Mumbai.lcbb@bankofindia.co.in

प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में बैंक ऑफ इंडिया का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार∕जमानती मैसर्स एससीज एक्सपोर्ट्स प्रा.लि., श्री सुमतिचन्द गाउती, श्री सूरजमल गाउती, मैसर्स सुमतिचन्द गाउती ज्वैलर्स प्रा.लि. से सूचन में उल्लिखित 17.07.2021 तक कुल बकाया रु. 280.40 करोड़ (रुपये दो सौ नवासी करोड़ चालीस लाख मात्र तथा भावी ब्याज का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहते हुए 17.07.2021 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित नियम 13(12) (2002 का सं. 3) के तह

कर्जदार/जमानितयों के राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार/जमानती को तथ जनसामान्य को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियग की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 10 अगस्त, 2022 को कब्ज कर लिया है।

एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदार/जमानती को तथा जनसामान्य को कथित सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहा न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार रु. 289.40 करोड़ तथा उस पर भावी ब्याज के लिए बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार का विषय होगा।

प्रतिभृत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सन्दर्भ में कर्जदार का ध्यान सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकष्ट किया जाता है।

वर्ग फीट और सुपर एरिया 1412 वर्ग फीट, मीराबाई को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड अब कृष्णा अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 10, सेक्टर -5, द्वारका, नई दिल्ली में स्थित, गारंटर श्री सुमतिचंद गाउती व

2) बिल्डिंग नंबर बी की 5वीं मंजिल पर आवासीय फ्लैट नंबर बी-505 का समस्त भाग, कवर्ड एरिया 1090 वर् फीट और सुपर एरिया 1412 वर्ग फीट, मीराबाई को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड अब श्री कृष्ण अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 10, सेक्टर -5, द्वारका, नई दिल्ली में स्थित, गारंटर श्री सुमतिचंद गाउती के नाम पर।

तिथि : 10.08.2022 स्थान : द्वारका, नई दिल्ली

अधिकृत प्राधिकारी बैंक ऑफ इंडिय

## नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड CIN: L92111DL1988PLC033099

 पंजीकृत कार्यालयः वी 50-ए, दूसरी मंजिल, अर्चना कॉम्प्लेक्स,
 ग्रेटर कैलाश - I, नई दिल्ली-110048 📞 फोन: (91-11) 4157 7777, 2644 6666 | 🕆 फैक्स: 49862990 🖾 ई-मेल: secretarial@ndtv.com | 🕀 वेबसाइट: www.ndtv.com

## 34" वार्षिक आम बैठक के संबंध में सचना

नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 34वीं वार्षिक साधारण बैठक ("एजीएम") वीडियो कॉन्फ्रेन्स ("वीसी")/अन्य ऑडियो विज्ञअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से, मंगलवार, 20 सितम्बर, 2022 को दोपहर 3.00 बजे (IST), कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और तद्धीन विरचित नियमों के सभी प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के साथ पठित कार्पेरेट कार्य मेंत्रालय ("एमसीए") तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी किए गए सभी लाग् सर्कलर्स के अनुपालन में, एजीएमें की सचना में वर्णित व्यापार का लेन-देन करने के लिए आयोजित

कम्पनी की 34वीं एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट इलेक्टोंनिक विधि द्वारा 27 अगस्त, 2022 तक उन सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनका ई-मेल पता कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(पार्टिसिपेंट्स) के पास पंजीकृत है। एजीएम् की सूचना तथा उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.ndtv.com तथा स्टॉक एक्सचेंजेज जैसे की बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर और नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे। ई-मेल पता पंजीकरण/अद्यतनीकरण की विधि:

 (क) जिन सदस्यों के शेयर भौतिक रूप में हैं और जिनके द्वारा अपना ई-मेल पता कम्पनी में पंजीकृत/अद्यतन नहीं करवाया गया है, उनसे अनुरोध है कि अपना ई-मेल पता यथाशीघ्र फार्म आईएसआर-1 (कम्पनी की वेबसाइट https://www.ndtv.com/convergence/ ndtv/corporatepage/images/FormISR-1.pdf पर उपलब्ध) विधिवत भरा गया और हस्ताक्षरित आवश्यक समर्थेन दस्तावेजों सहित कम्पनी को secretarial@ndtv.com पर अथवा आरटीए को केफिन टेक, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबावली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500 032 के पते पर भेज कर पंजीकत/अद्यतन करवा लें। जिन सदस्यों के शेयर डीमैट रूप में हैं और जिनके द्वारा अपना ई-मेल पता डिपॉजिटरी

पार्टिसिपैंट(पार्टिसिपैंटस) के पास पंजीकत/अद्यतन नहीं करवाया गया है, उनसे अनरोध है कि उसका पंजीकरण/अद्यतनीकरण अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(पार्टिसिपेंट्स) के पास करवा लें. जहां उनका डीमैट खाता अनुरक्षित है। ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विधि:

सदस्यगण एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय पर अपना/अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("ई-वोटिंग") के माध्यम से डॉल सकते हैं। डीमैट रूप में भौतिक रूप में शेंयरों के धारक सदस्यों तथा जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया है, उनके द्वारा वोट डालने की विधि जिसमें रिमोटली वोटिंग ("रिमोट ई-वोटिंग") तथा एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा वोटिंग शामिल है. एजीएम की सचना में दी गई हैं। एजीएम में भाग ले रहे वे सदस्य, जिनके द्वारा रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला गया है. एजीएम के समय पर इलेक्टोंनिक विधि से वोट डाल सकेंगे। उपयोग किए जाने वाले लॉगइन केडेन्शियल्स और एजीएम में भाग लेने हेत कदमों के बारे में जानकारी एजीएम की सचना में व्याख्यायित की गई है।

सटस्यों से एजीएम की सचना और विशेषकर एजीम से जुड़ने संबंधी अनुदेश, रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विधि सावधानी के साथ पढ़ने का अनुरोध किया जाता है।

कृते नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड परिणीता भूटानी दुग्गल कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

Email Id.: compliances@atsgreens.com; Website: www.atsgreens.com

Format for publishing financial results in newspapers

## ANNEXURE I

स्थानः नई दिल्ली

ATS HEIGHTS PRIVATE LIMITED

Regd. Off.: 711/92, Deepali, Nehru Place, New Delhi – 110019

CIN: U70200DL2010PTC205410; Phone No.: 0120-7111500; Fax No.: 0120-7111550

दिनांक: 12 अगस्त, 2022

[Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

(Amount in Lakhs) For the Quarter ended For the Year

		For the Q	ended		
S. No.	Particulars	30.06.2022	31.03.2022	31.03.2022	
		Unaudited	Audited	Audited	
1	Total Income from Operations	0.90	2.65	15.20	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	(55.85)	(65.51)	(324.44)	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(55.85)	(65.51)	(324.44)	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(39.04)	(80.52)	(229.99)	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(39.04)	(80.52)	(229.99)	
6	Paid up Equity Share Capital	1.00	1.00	1.00	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve )	(2,497.99)	(2,458.95)	(2,458.95)	
8	Securities Premium Account	-	-	_	
9	Net worth	(2,496.99)	(2,457.95)	(2,457.95)	
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	2,17,471.80	2,17,454.40	2,17,454.40	
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	
12	Debt Equity Ratio*	(87.09)	(88.47)	(88.47)	
	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
13	1. Basic:	(390.40)	(805.22)	(2,299.99)	
	2. Diluted:	(390.40)	(805.22)	(2,299.99)	
14	Capital Redemption Reserve	-	-	_	
15	Debenture Redemption Reserve	-	-	-	
16	Debt Service Coverage Ratio*	(0.001)	(0.002)	(0.005)	
17	Interest Service Coverage Ratio*	(0.017)	(0.021)	(0.022)	

a) The above is an extract of the detailed format of quarterly/annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/annual financial results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity.

b) For the other line items referred in the Regulation 52 (4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s).

c) # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

d)\*-The pertinent items need to be disclosed if the said disclosure is required as per Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

**Lovely Pathak** 

Place: Noida

e) Previous periods figures have been reclassified wherever considered necessary.

**Getamber Anand** SD/-

Director

Place: Noida

SD/-Director Date: 10-08-2022 Date:10-08-2022

www.readwhere.com